



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

24 FEB 1977

सं० 33] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 14, 1977/माघ 25, 1898  
No. 33] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 14, 1977/MAGHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके :  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF LABOUR

### RESOLUTION

*New Delhi, the 14th February 1977*

**No. U-23013(3)/77-LW.**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the question of working of Contract Labour System in Coal Washeries in the country.

2. The composition of the Committee and its terms of reference will be as under:—

#### Composition

- (1) Shri S Das Gupta, General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, Dhanbad
- (2) Shri U N Prasad, General Secretary, Panposh Mazdoor Union, P.O Rourkela, Sundergarh District (Orissa)
- (3) Shri Prakash Roy, General Secretary, Samyukt Khadan Mazdoor Sangh (AITUC), Chikli, P.O Rajnandgaon, Dist Durg (M.P.) Alternate Shri S. K Sanyal (AITUC).
- (4) Shri N P. Dhusia, Sr. Dy General Manager, Steel Authority of India Limited, New Delhi.

- (5) Shri T. R. Goenka, Goenka Minerals Limited, P.B. No 271, Nagpur.
- (6) Shri R. S. Murthy, Chief Personnel Officer, National Coal Development Corporation, Central Division of Coal Mines Authority, Ranchi
- (7) Shri K. D. Gandhi, Under Secretary, Ministry of Labour Convener.

*Terms of Reference*

- (1) To identify jobs where contract labour is being employed, in the coal washeries in the country;
- (2) To recommend operations where the contract labour system should be abolished, and
- (3) To report whether the welfare amenities provided for contract labour in the coal washeries in the country are in accordance with the requirements of the law

3. The headquarters of the Committee will be at New Delhi. The Committee would endeavour to submit its report within three to four months

D. BANDYOPADHYAY,

Chairman, Central Advisory Contract  
Labour Board and Jt. Secy.

ORDER

Copies of the Resolution may be sent to

1. All the Members of the Central Advisory Contract Labour Board
2. The Ministry of Energy (Department of Coal) Shri K. Sitaraman, Director.
3. The Ministry of Steel & Mines (Department of Steel, Shri M. M. Hussain, Deputy Secretary), New Delhi
4. The Ministry of Steel & Mines (Department of Mines, Shri M. M. Bakshi, Under Secretary) New Delhi
5. The Steel Authority of India, New Delhi.

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India Extraordinary

D. BANDYOPADHYAY,

Chairman, Central Advisory Contract  
Labour Board and Jt. Secy.

**श्रम मंत्रालय**

**संकल्प**

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1977।

**संख्या मू० 23013(3)/77-एल० उच्चल्यु०.**—ठेका श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड एतद्वारा एक समिति गठित करता है जो देश में कोल धागरीज में ठेका श्रम पद्धति के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करेगी।

2 समिति का गठन और इसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे —

**गठन**

- (1) श्री एम० दाम गुप्ता, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन, धनबाद।

- (2) श्री यू० एन० प्रसाद, महा सचिव, पम्पोज मजदूर यूनियन, डाकघर राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा) ।
- (3) श्री प्रकाश राय, महा सचिव, मरुक्त खदान मजदूर संघ (एटक), चिकली, डाकघर राजनन्दगाव, जिला दुर्ग (मध्य प्रदेश) एवजी श्री एम० के० मन्थाल (एटक) ।
- (4) श्री एन० पी० धूमिया, वरिष्ठ उप महा प्रबन्धक, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली ।
- (5) श्री टी० आर० गोएनका, गोएनका मिनरल लिमिटेड, पोस्ट बक्स नं० 271, नागपुर ।
- (6) श्री आर० एम० मूर्ति, चीफ पर्सनल आफिसर, नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन सेंट्रल डिशेजन आफ कोल माइनस अथारिटी, राबो ।
- (7) श्री के० डा० गांधी, अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, कन्वेनर ।

#### विचारार्थ विषय

- (1) देश में कोल वाशरीज में उन कार्यों को शिनाख्त करना जहां ठेका श्रमिकों को नियोजित किया जा रहा है ;
- (2) ऐसे कार्यों की सिफारिश करना जहां ठेका श्रम पद्धति समाप्त की जानी चाहिए, और
- (3) इस बात की रिपोर्ट देना कि क्या देश में कोल वाशरीज में ठेका श्रमिकों के लिए बर्तमान कल्याण सुविधाएँ कानून की अपेक्षाओं के अनुसार हैं ।

3 समिति का मध्य कार्यालय नई दिल्ली में होगा । समिति तीन से चार महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी ।

डॉ० बन्धोपाध्याय,  
अध्यक्ष, केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड एवं  
संयुक्त सचिव ।

#### आदेश

सकल्य की प्रतिया निम्नलिखित को भजी जाए

- 1 केन्द्रीय ठेका श्रमिक सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य ।
- 2 ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग), श्री के० सोतारामन, निदेशक ।
- 3 इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग, श्री एम० एम० हुसैन, उप सचिव) नई दिल्ली ।

4. इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग श्री एम० एम० टक्की, अवर सचिव, नई दिल्ली ।

5 दि स्टील अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली ।

अ देश है कि सकल्प की प्रति भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की जाए ।

डी० बन्धोपाध्याय,

अध्यक्ष, केन्द्रीय ठेका श्रमिक समन्वयक बोर्ड

एवं संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977